



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 14—मई 20, 2011 (वैशाख 24, 1933)  
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 14—MAY 20, 2011 (VAISAKHA 24, 1933)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 13 अप्रैल 2011

सं. एसबीडी क्र. 01/2011-12--एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री राजेश टी. मनुबरवाला, 47, प्रीतम सोसायटी 1, कसक के पास, भरुच-392001 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 20 अप्रैल 2011 से 19 अप्रैल 2014 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

प्रतीप चौधरी  
अध्यक्ष

-----  
दिनांक 10 मई 2011

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की एक साधारण सभा शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2011 को प्रातः 10.00 बजे बैंक के सभागृह, स्टेट बैंक भवन काम्पलेक्स, मैडम कामा रोड़, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु होगी :--

“भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (ग) के उपबंधों के  
अंतर्गत बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के लिए चार निदेशकों का चुनाव करना”

2. यह चुनाव शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निम्नलिखित चार निदेशकों के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप होने वाले रिक्त पदों को भरने के लिए हो रहा है :

| क्रमांक | निदेशक का नाम        | निर्वाचित होने की तिथि | कार्यकाल अवधि            |
|---------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1.      | डॉ. अशोक झुनझुनवाला  | 23.06.2008             | 24.06.2008 से 23.06.2011 |
| 2.      | श्री दिलीप सी. चौकसी | 23.06.2008             | 24.06.2008 से 23.06.2011 |
| 3.      | श्री एस. वैकटाचलम    | 23.06.2008             | 24.06.2008 से 23.06.2011 |
| 4.      | श्री डी. सुंदरम      | 12.01.2009             | 13.01.2009 से 23.06.2011 |

3. निर्वाचित होने वाले निदेशकों का कार्यकाल 25 जून 2011 से 24 जून 2014 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा।

4. नामांकन भरने वाले शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नामांकन फॉर्म और घोषणा एवं वचन-पत्र के प्रारूप बैंक के सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधकों के सचिवालय और केन्द्रीय कार्यालय (कारपोरेट केन्द्र) के केन्द्रीय बोर्ड सचिवालय में उपलब्ध हैं। विधिवत भरे हुए नामांकन फॉर्म और घोषणा एवं वचन-पत्र के साथ सभी संबंधित दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफे में गुरुवार, दिनांक 2 जून 2011 को दोपहर 12.00 बजे (बंद होने का समय) तक या उससे पूर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय (कारपोरेट केन्द्र) में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। लिफाफे पर "शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के निर्वाचन हेतु नामांकन फॉर्म" साफ-साफ लिखा होना चाहिए और इसे निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए :

सचिव, केन्द्रीय बोर्ड  
भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय  
19वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन  
मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021

बंद होने के समय के बाद प्राप्त नामांकन फॉर्म और घोषणा एवं वचन-पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

5. शेयरधारक, जिनके पास उनके अधिकार में चाहे वे एकमात्र अधिकार में या संयुक्त रूप में होने पर प्रथम नाम से हो और बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में कम से कम 500 भारमुक्त शेयर उनके नाम में पंजीकृत हो तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19क एवं 22 के उपबंधों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के अनुसार अयोग्य न हों, चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं।

6. शेयरधारक, जिनके पास उनके अधिकार में चाहे वे एकमात्र अधिकार में हो या संयुक्त रूप में होने पर प्रथम नाम से 50 और उससे अधिक शेयर हों और वे इस साधारण सभा की तिथि से 3 माह पूर्व की एक न्यूनतम अवधि के लिए बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में पंजीकृत हों तथा जो इस सभा की तिथि को न्यूनतम 50 शेयरों के साथ बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में लगातार एक शेयरधारक के रूप में बने हुए हों, इस चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हैं।

प्रतीप चौधरी  
अध्यक्ष

## STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 13th April 2011

No. SBD No. 01/2011-12—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with Govt. of India and Reserve Bank of India, nominated Shri Rajesh T. Manubarwala, 47, Pritam Society 1, Near Kasak, Bharuch-392001, as a director on the Board of Directors of State Bank of Bikaner & Jaipur for a period of three years with effect from 20th April 2011 to 19th April 2014 (both days inclusive).

PRATIPCHAUDHURI  
Chairman

The 10th May 2011

A General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held on Friday, the 24th June 2011, in the Bank's Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai-400021 (Maharashtra) at 10.00 a.m., for transaction for the following business :—

"to elect four Directors to the Central Board of the Bank under the provisions of Section 19(c) of the State Bank of India Act, 1955"

2. The election is being held to fill in the vacancies arising out of the retirement of the following four directors elected by Shareholders :—

| Sl. No. | Name of the Director   | Elected on | Term                     |
|---------|------------------------|------------|--------------------------|
| 1.      | Dr. Ashok Jhunjhunwala | 23.06.2008 | 24.06.2008 to 23.06.2011 |
| 2.      | Shri Dileep C. Choksi  | 23.06.2008 | 24.06.2008 to 23.06.2011 |
| 3.      | Shri S. Venkatachalam  | 23.06.2008 | 24.06.2008 to 23.06.2011 |
| 4.      | Shri D. Sundaram       | 12.01.2009 | 13.01.2009 to 23.06.2011 |

3. The term of the Directors to be elected by the Shareholders will be for a period of three years from 25th June 2011 to 24th June 2014.

4. The Nomination form and the format of the Declaration & Undertaking to be submitted by the Shareholders filing Nominations are available with the Secretariat of the Chief General Managers at all the Local Head Offices and the Central Board Secretariat at the Central Office

(Corporate Centre) of the Bank. The duly filled up Nomination form and Declaration & Undertaking should be submitted with all connected documents in a sealed envelope to the Bank at its Central Office (Corporate Centre) on or before Thursday, the 2nd June, 2011 by 12.00 noon (closing time). The envelope should be superscribed "NOMINATION FORM FOR ELECTION OF DIRECTORS BY SHAREHOLDERS" and addressed to:

The Secretary, Central Board,  
State Bank of India, Central Office,  
19<sup>th</sup> Floor, State Bank Bhavan,  
Madame Cama Road, Mumbai 400021.

Nomination form and Declaration & Undertaking received after the closing time will be rejected.

5. Any Shareholder having not less than 500 unencumbered shares registered in his/ her own right, either as sole holder or as first named holder when jointly held, in the Register of Shareholders of the Bank and not disqualified under the provision of Sections 19A and 22 of the State Bank of India Act 1955 and Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949 is eligible to contest the election.

6. Any Shareholder with 50 shares and above, registered in his/her own right, either as sole holder or as first named holder when jointly held, in the Register of Shareholders of the Bank for a minimum period of 3 months prior to the date of the General Meeting and who continues to be a shareholder with minimum 50 shares in the Register of the Bank's shareholders as on the date of the Meeting, is eligible to vote in the Election.

PRATIP CHAUDHURI  
Chairman